



# Punjab Government Gazette

## EXTRAORDINARY

*Published by Authority*

---

CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 16, 2025 (PAUSA 26, 1946 SAKA)

---



## भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PB-LA/26/2022/CEMS-I

6<sup>th</sup> January, 2025  
16 Pausa, 1946(Saka)

### ORDER

**WHEREAS**, the General Election to Legislative Assembly of Punjab, 2022 for **26-Bholath** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/PB-LA/2022, dated 25<sup>th</sup> January; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

**WHEREAS**, the result of the election for **26-Bholath** Assembly Constituency of Punjab, 2022 was declared by the Returning Officer on **10<sup>th</sup> March, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **9<sup>th</sup> April, 2023**; and

**WHEREAS**, as per the report dated nil, of the **DEO, Kapurthala** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the CEO, Punjab vide his letter No. Elec-2022 /R-8510 dated 26 April 2022 stating that **Sh. Joginder Singh Maan** a contesting candidate from **26-Bholath** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Punjab, 2022 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kapurthala** a Show-Cause notice No. **76/PB-LA/26/2022/CEMS-I**, dated **15<sup>th</sup> June, 2022** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Joginder Singh Maan** for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Joginder Singh Maan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kapurthala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **Kapurthala** vide his report No. **Elec-2022/6336** dated **14.07.2022** reported that the said notice was served to **Sh. Joginder Singh Maan**, on dated **01.07.2022**; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **Kapurthala** Supplementary vide letter no -2024-9193 dated 17-10 -2024 **Sh. Joginder Singh Maan**, has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Joginder Singh Maan**,

has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

*"If the Election Commission is satisfied that a person-*

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Joginder Singh Maan**,

has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Joginder Singh Maan**, **Vill. Boparai, Tehsil Bholath, District Kapurthala** and a contesting candidate in **26-Bholath Assembly Constituency** of the State of Punjab in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(SUJEET KUMAR MISHRA)

SECRETARY



# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/पीबी.-वि.स./26/2022 सी.ई.एम.एस.-1

दिनांक: 6 जनवरी, 2025  
16 पौष, 1946(शक)

## आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी की अधिसूचना सं० 464/ पीबी-वि०स०/2022 के अनुसरण में पंजाब राज्य के **26-भोलाथ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब राज्य के **26-भोलाथ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से दिनांक 26 अप्रैल 2023 के पत्र सं० इलेक्.-2022/आर-8510 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक शून्य के अनुसार **श्री जोगिन्दर सिंह मान** जो पंजाब राज्य **26-भोलाथ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2022 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री जोगिन्दर सिंह मान** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/पीबी-वि.स./26/2022/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 15 जून, 2022 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री जोगिन्दर सिंह मान**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कपूरथला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, कपूरथला जिला ने पत्र सं० इलेक्/2022/6336 दिनांक 14.07.2022 सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री जोगिन्दर सिंह मान को दिनांक 01.07.2022 को अग्रेषित किया गया था, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, कपूरथला, की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा पत्र सं० इलेक्.2024/आर०-9193. दिनांक 17.10.2024 अग्रेषित किया और बताया कि श्री जोगिन्दर सिंह मान, ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, श्री जोगिन्दर सिंह मान, ने लेखा दाखिल नहीं करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जोगिन्दर सिंह मान अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब राज्य के साधारण निर्वाचन, 2022 के 26-भोलाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जोगिन्दर सिंह मान, गांव बोपराई, तहसील भोलाथ, जिला कपूरथला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(सुजीत कुमार मिश्र)

सचिव